

प्रावक्थन

1. कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबंधों के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक अथवा नमूना लेखापरीक्षा की जाती है और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देता है अथवा उसके द्वारा एक पूरक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त इन कम्पनियों की नि.म.ले.प. द्वारा नमूना जांच भी की जाती है।
2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और उसके द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की अपेक्षा की गई है। पांच ऐसे निगमों यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्रेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सुसंगत संविधियों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उनका एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक निगम यथा केन्द्रीय भाष्डागारण निगम के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निगम को शासित करने वाली संबंधित संविधि के अधीन नियुक्त किए गए सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद अनुपूरक अथवा नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
3. एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के उपबंधों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं।
4. इस रिपोर्ट में उल्लिखित मामले उन मामलों में से हैं जो 2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आए और जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए परन्तु पिछले वर्षों में जिन्हें सूचित नहीं किया जा सका। इसी प्रकार कुछ मामलों में मार्च 2011 के बाद के लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणाम, जहां कहीं उपलब्ध और सुसंगत हैं, भी उल्लिखित किए गए हैं।
5. इस रिपोर्ट में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या सा क्षे उ' के सभी प्रसंग 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।